

## एक वरिष्ठ रिसर्च फेलो के अस्थायी / संविदात्मक पद के लिए विज्ञापन

एम्स, नई दिल्ली में निम्नलिखित प्रोजेक्ट में एक वरिष्ठ रिसर्च फेलो के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

स्थिति का नाम और संख्या शीर्षक	शीर्षक	पात्रता	समेकित वेतन	अवधि
सीनियर रिसर्च फेलो (01)	दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया में सीओए सिंथेटिक मार्ग के एंजाइमों के खिलाफ उपन्यास जीवाणुरोधी एजेंटों के विकास के लिए तर्कसंगत संरचना-आधारित लिगैंड डिजाइन, एमएससी के बाद एसिनोबोबैक्टेर बॉमनी	M.Sc. के बाद दो साल का अनुभव 60% अंकों या समकक्ष सीजीपीए ग्रेड के साथ डिग्री (बायोइनफॉर्मैटिक्स)।	ICMR के अनुसार रु। 35,000 / माह + 24% एचआरए	03 साल

### वांछनीय योग्यता:

उम्मीदवार को डॉकिंग, एमडी सिमुलेशन और जैविक डेटाबेस निर्माण में अनुभव होना चाहिए।

### महत्वपूर्ण:

- इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2021 तक ईमेल (sujatasharma.aiims@gmail.com) पर अपना विस्तृत रिज्यूमे भेज सकते हैं।
- केवल चयनित उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- आवेदक को साक्षात्कार के समय स्वयं / स्वयं के साथ शिक्षा योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र के सभी प्रशंसापत्र लाने होंगे।
- इसके लिए कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

**डॉ। सुजाता शर्मा**

प्रोफेसर

बायोफिज़िक्स विभाग

एम्स, नई दिल्ली -110029

**Dr. SUJATA SHARMA**  
Professor  
Department of Biophysics  
All India Institute of Medical Sciences  
New Delhi-110029



**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES**  
**Ansari Nagar, New Delhi-110029**

**Advertisement for the temporary/contractual post of a Senior Research Fellow**

Applications are invited from eligible candidates for the post of a Senior Research Fellow in the following project at AIIMS, New Delhi.

Position Name & Number	Title of the project	Eligibility	Consolidated Salary	Duration
Senior Research Fellow (01)	Rational Structure-based ligand design for developing the novel antibacterial agents against the enzymes of CoA synthetic pathway in drug resistant bacteria, <i>Acinetobacter baumannii</i>	Two years Research Experience after M.Sc. Degree (Bioinformatics) with 60% of marks or equivalent CGPA grade.	Rs 35,000/month + 24% HRA as per ICMR	03 Years

**Desirable Qualifications:**

Candidate should have experience in docking, MD simulations and biological database creation.

**Important:**

1. Interested candidate may send their detailed resume by email at ([sujatasharma.aiims@gmail.com](mailto:sujatasharma.aiims@gmail.com)) by 20<sup>th</sup> February 2021.
2. Only Selected candidate will be called for interview.
3. Applicant must bring all the testimonials of Education Qualification and Experience certificates along with himself/herself at the time of interview.
4. No TA/DA will be given for the same.


**Dr. Sujata Sharma**

Professor

Department of Biophysics

AIIMS, New Delhi-110029

Email: [sujatasharma.aiims@gmail.com](mailto:sujatasharma.aiims@gmail.com)

  
**Dr. SUJATA SHARMA**  
Professor  
Department of Biophysics  
All India Institute of Medical Sciences  
New Delhi-110029